

प्रेस विज्ञप्ति

**जामिया में 'हेल्थ, ह्यूमन राइट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन: ए सोशियो-लीगल एनालिसिस' पर
ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित**

जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) के समाजशास्त्र विभाग ने सोमवार, 24 जनवरी, 2022 को एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया। यह व्याख्यान 'हेल्थ, ह्यूमन राइट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन: ए सोशियो-लीगल एनालिसिस' विषय पर प्रो. तपन मोहंती, राष्ट्रीय विधि संस्थान, भोपाल द्वारा दिया गया। प्रो. मोहंती, सेंटर फॉर सोशियो-लीगल स्टडीज के अध्यक्ष और राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल में दूरस्थ शिक्षा विभाग के डीन हैं।

जामिया के समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्ष प्रो मनीषा त्रिपाठी पांडे ने स्वागत भाषण दिया तथा आमंत्रित वक्ता, संकाय सदस्यों, विद्वानों और छात्रों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, 'गणतंत्र दिवस भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है और आज की चर्चा विभाग द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह का एक हिस्सा है। इसके बाद उन्होंने सम्मानित वक्ता प्रो. तपन मोहंती का परिचय कराया, जिनका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया।

मूल रूप से व्याख्यान का विषय भारत में स्वास्थ्य सेवा के प्रति सरकार के दृष्टिकोण रहा। इस व्याख्यान के माध्यम से, प्रोफेसर मोहंती ने भारत में स्वास्थ्य सेवा के इतिहास की चर्चा की और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। स्पीकर ने संवैधानिक लक्ष्यों की एक सक्रिय प्राप्ति की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य के अधिकार को लागू करने की वकालत की। मौजूदा महामारी और टीकाकरण को अमल में लाते हुए, उन्होंने अधिकारों, गोपनीयता और स्वास्थ्य सुरक्षा पर चर्चा के बीच नागरिक समाज को सक्रिय करने की बात कही।

इसके बाद एक आकर्षक और गहन प्रश्नोत्तर सत्र हुआ। अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस वार्ता में विश्वविद्यालय के विद्वानों, छात्रों और शिक्षकों ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिलिया इस्लामिया